



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80]
No. 80]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 1979/चैत्र 2, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 1979/CHAITRA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1979

सां०का०नि० 258(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में, नियम 12 के उप-नियम (2) के नीचे निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“2(क) ऊपर उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, श्रेणी 1 की ऐसी रिक्तिया, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा भरने का विनिश्चय किया गया है और जिनके लिए पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा योग्यता क्रम के आधार पर भरी जाएगी। सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के नियम, गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अधिधारित किए जाएंगे।”

[4/73/78-के०से०(I)(i)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd March, 1979

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Rules, 1962, the following sub-rule shall be inserted below sub-rule (2) of rule 12, namely:—

“2(a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) above, vacancies in Grade I decided to be filled by members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for which eligible officers are not available, shall be filled on the results of a limited departmental competitive examination held by the Commission from time to time, in the order of their merit. The regulations for the limited departmental competitive examination shall be determined by the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs.”

[No. 4/73/78-CS(I)(i)]

सांका०नि० 259(अ).—गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम 2(क) और नियम 23 के अनुसरण में, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम:—(1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी 1 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “निर्णायक तारीख” से उस वर्ष के, जिसमें परीक्षा हुई है, पूर्व वर्ष के दिसम्बर का 31वां दिन अभिप्रेत है,

(ख) “परीक्षा” से आयोग द्वारा ली गई ऐसी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है और आरक्षित रिक्तियों की वाञ्छित श्रेणी 1 चयन सूची में अन्य नामों के समावेश के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीमित है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियों के जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में परिभाषित है, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. परीक्षा लेना:—(1) आयोग समय-समय पर गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित रीति में परीक्षा लेगा।

(2) आयोग वे तारीखें, जिनको और वे स्थान, जहाँ पर, परीक्षा ली जाएगी, नियत करेगा।

4. पात्रता की शर्तें:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी श्रेणी का कोई स्थायी अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का श्रेणी ‘क’ अधिकारी या कोई अधिकारी जिसका नाम अनुभाग अधिकारी श्रेणी की चयन सूची में या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में शामिल कर लिया गया है और जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है जो निर्णायक तारीख को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, अर्थात्:—

(1) सेवा की अवधि:—उराने यथास्थिति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को अनुभाग अधिकारी श्रेणी में या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी ‘क’ में, या दोनों में, कम से कम 4 वर्ष अनुमोदित और निरन्तर सेवा कर ली है।

टिप्पण:—(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी ‘क’ अधिकारियों की दशा में, अनुमोदित सेवा में, उस सेवा को श्रेणी ‘ख’ में की गई अनुमोदित सेवा के आधे भाग को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) सैनिक कर्तव्य पर अनुपस्थिति को किसी अवधि को, उपर्युक्त किसी पद पर सेवा को विहित अवधि गिना जा सकेगा।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी ‘क’ अधिकारी, जो काइर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं तो, परीक्षा में प्रविष्टि किए जाने के लिए पात्र होंगे।

(3) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का वह अनुभाग अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वह श्रेणी ‘क’ अधिकारी,

जो काइर बाह्य पद पर या स्थानान्तरण पर किम् किया गया है और जिसका, यथास्थिति, अनुभाग केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक श्रेणी को श्रेणी ‘क’ नहीं है, परीक्षा में प्रविष्टि किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

5. पात्रता के संबन्ध में विनिश्चय:—परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबन्ध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसी किसी अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, परीक्षा में प्रविष्टि नहीं किया जाएगा।

6. परीक्षा परिणाम:—(1) ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, जिन्हें किसी परीक्षा के परिणाम पर चयन के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाए, योग्यता के अनुक्रमानुसार दो अलग-अलग सूचियों में, एक अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए और दूसरी अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए, सूचीबद्ध किए जाएंगे और आयोग द्वारा ऐसे अर्हित पाए गए अभ्यर्थियों में से उक्त योग्यताक्रमानुसार उन्ने अभ्यर्थियों के नामों को सिफारिश की जाएगी जितने का, चयन सूची में अभ्यर्थियों के उपर्युक्त दो प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग को बाबत सम्मिलित किया जाना है।

(2) आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से ऐसी रीति से संसूचित किए जाएंगे जैसी आयोग अपने विवेकानुसार विनिश्चित करे।

7. चयन:—परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही श्रेणी 1 को चयन सूची में सम्मिलित किए जाने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है जब तक कि केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी, सेवा में उसके आचरण की दृष्टि से, सब तरह से चयन के लिए उपयुक्त है:

परन्तु यह विनिश्चय कि आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशिष्ट अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है, आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

8. अवचार के लिए शास्ति:—यदि किसी अभ्यर्थी के बारे में आयोग द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है कि वह,—

(क) अपनी अभ्यर्थी के लिए किसी साधन से समर्थन प्राप्त करने का, या

(ख) प्रतिरूपण का, या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण उपाप्त करने का, या

(घ) गढ़े गए दस्तावेज या ऐंसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का, जिनमें हेर फेर किया गया है, या

(ङ) ऐसे कथन करने का, जो असूद्ध या मिथ्या है या कोई तात्विक जानकारी बचाने का है, या

(च) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबन्ध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेने का, या

(छ) परीक्षा भवन में अनुचित माधनों का प्रयोग करने का, या

(ज) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करने का, या

(झ) पूर्वगामी खण्डों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी कार्य के, यथास्थिति, प्रयास का या उसके लिए, वृद्धरण का,

दोषी है, तो वह दण्डक अभियोजन के लिए दायी होने का अतिरिक्त,—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, अर्हित किया जा सकता है, या

(ख) स्थायी रूप से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए,—

(i) आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से विवर्जित किया जा सकता है,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उसके अधीन किसी नियोजन से, विवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) समुचित नियमों के अधीन, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

[सं० 4/73/78-के०मे०(I)(ii)]

पी०के० मट्टू संयुक्त सचिव

G.S.R. 259(E).—In pursuance of sub-rule (2a) of rule 12 and rule 23 of the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title.—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Service Grade I (Limited Departmental Competitive Examination for filling vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Regulations, 1979

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "crucial date" means the thirty-first day of December, of the year preceding the year in which the examination is held;

(b) "examination" means the limited departmental competitive examination held by the Commission and confined to the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for making additions to the Select List for Grade I against reserved vacancies.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Central Secretariat Service Rules, 1962, shall have the meanings respectively assigned to them in those Rules.

3. Holding of the examination.—(1) The examination shall be conducted by the Commission in the manner notified by the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs from time to time.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Commission.

4. Conditions of eligibility.—Any permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service or Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers and Service or any officer whose name has been included in the Select List for the Section Officers' Grade or the Select List for Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service and who belongs to any Scheduled Caste or Scheduled Tribe and who, on the crucial date, satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination, namely :—

(1) Length of service.—He should have rendered not less than 4 years' approved and continuous service in the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service or in Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both, as the case may be.

Note : (i) In the case of Grade 'A' officers of the Central Secretariat Stenographers' Service, the approved service, shall include half of the approved service rendered in Grade 'B' of that Service.

(ii) Any period of absence on military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above posts.

(2) Section Officers of the Central Secretariat Service and Officers of Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers'

Service who are on deputation to ex-cadre posts shall be eligible to appear at the examination if otherwise eligible.

(3) A Section Officer of the Central Secretariat Service or an officer of Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the Section Officers' Grade or Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service as the case may be, shall not be eligible to appear at the examination.

5. Decision as to eligibility.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

6. Results.—(1) The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of any examination shall be arranged in the order of merit in two separate lists, one being for candidates belonging to the Scheduled Castes and the other being for candidates belonging to the Scheduled Tribes, and in that order as many candidates, as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select List for each of the aforesaid two categories of candidates upto the required number.

(2) The results of the examination shall be communicated to individual candidates by the Commission in such manner as may be determined by the Commission.

7. Selection.—Success in the examination confers no right to be included in the Select List for Grade I unless the Central Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Commission.

8. Penalty for misconduct.—A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(a) obtaining support for his candidature by any means ; or

(b) impersonating ; or

(c) procuring impersonation by any person ; or

(d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with ; or

(e) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information ; or

(f) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination ; or

(g) using unfair means in the examination hall ; or

(h) misbehaving in the examination hall ; or

(i) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them ;

(ii) by the Central Government from any employment under them ; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

[No. 4/73/78-CS(I)(ii)]

P. K. MATTOO, Jt. Secy.

